



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1932 (श10)  
(सं0 पटना 572) पटना, सोमवार, 16 अगस्त 2010

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

15 जून 2010

सं0 स्था0(मु0)1-1138/2007/204/सू0ज0स0वि0—सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार, पटना की परामर्शदातृ समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1. श्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री	अध्यक्ष
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	
2. श्री इन्द्रदेव प्रसाद (राजद)	सदस्य
3. श्री हरिभूषण ठाकुर (निर्दलीय)	सदस्य
4. श्री गुंजेश्वर साह (जदयू)	सदस्य
5. श्री रामानन्द प्रसाद सिंह (जदयू)	सदस्य
6. श्री राम नरेश राम (माले)	सदस्य
7. श्री नित्यानन्द राय (भाजपा)	सदस्य
8. श्री हरि नारायण चौधरी	सदस्य
9. श्री गंगा प्रसाद	सदस्य
10. श्री उदय नारायण राय (राजद)	सदस्य

स0 वि0 प0

2. समिति के जो सदस्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य के पद से मुक्त हो जायेंगे वे समिति की सदस्यता से भी स्वतः मुक्त जायेंगे।

3. समिति के सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक (विधान-सभा प्रभारी) होंगे।

4. समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी।

5. विभागीय परामर्शदातृ समिति के निम्नांकित कर्तव्य एवं दायित्व होंगे :-

(क) विभाग में कार्याधीन योजनाओं एवं विभाग द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा,

(ख) विभाग में सुचारु रूप से कार्य सम्पादन के लिए विभागीय प्रशासन एवं उसके ढांचे में सुधार के लिए सुझाव,

(ग) कार्य की प्रगति तीव्र करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए परामर्श देना, एवं

(घ) भविष्य में कार्य योजना तैयार करना।

6. समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को सचिव समिति की बैठक बुलायेंगे। सचिव समिति में उपस्थापित किए जानेवाले कार्यक्रम का विवरण तैयार कराकर सदस्यों के बीच प्रसारित करेंगे, जिसके साथ वे कार्यक्रम के प्रत्येक मद की व्याख्या करते हुए संलेख और प्रभारी मंत्री के आदेशानुसार अगर अन्य कोई कागजात समिति में उपस्थापित करना हो तो संलग्न करेंगे।

7. समिति की बैठक में सचिव कार्यक्रम के प्रत्येक मद की व्याख्या करेंगे, तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय सदस्यों से विचार-विमर्श करने को अनुरोध करेंगे और समिति के सचिव तदनुसार विभागीय संचिका में समिति का सामान्य विचार अंकित करेंगे।

8. समिति का कार्य केवल सलाहकारी रहेगा एवं उसकी कार्यवाही अत्यन्त गोपनीय होगी। सदस्यों के बदले कोई अन्य समिति में भाग नहीं ले सकेंगे। समिति की बैठक में विचार किये गये विषय पर वोट नहीं दिये जायेंगे।

9. बैठक के पश्चात् समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण विधान-सभा/विधान परिषद् को भेजेगा।

10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गणेश प्रसाद,  
निदेशक।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 572-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>